



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 111] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 10, 1973/वैशाख 20, 1895

No. 111] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 10, 1973/VAISAKHA 20, 1895

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

LOK SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th May 1973

G.S.R. 244(E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (3) of section 9 of the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954), the Joint Committee constituted under sub-section (1) of that section, after consultation with the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules, 1956, the same having been approved and confirmed by the Chairman of the Council of States and the Speaker of the House of the People, as required by sub-section (4) of the said section, namely:—

1. (1) These rules may be called the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Amendment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. After rule 4 of the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules, 1956, the following rule shall be inserted, namely:—

“4.A. Other exemptions in respect of Telephone Charges.

- (1) Where metering facility in respect of the telephone installed under sub-rule (3) of rule 4 is available, local calls made from that telephone and local calls made from the telephone installed under sub-rule (1) of rule 4 shall be pooled together and a Member shall not be liable to make any payment in respect of ten thousand eight hundred local calls made from the two telephones during any year.

- (2) Where metering facility in respect of the telephone installed under sub-rule (3) of rule 4 is not available, no Member shall be liable to make any payment in respect of the local calls made from that telephone and in respect of another two thousand seven hundred local calls, in addition to five thousand four hundred local calls, made from the telephone installed under sub-rule (1) of rule 4 during any year.
- (3) Where a Member has either not been provided with a telephone or does not desire to be provided with a telephone under sub-rule (3) of Rule 4, he shall not be liable to make any payment in respect of additional five thousand four hundred local calls made from the telephone installed under sub-rule (1) of rule 4 during any year."

[No. F.4/1/MSA/72-Vol. II.]

S. L. SHAKDHER, Secy.

लोक सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 1973

सा० का० नि० 244(अ).—संसद् सदस्यों के संबलमो और भत्तो से सम्बन्धित अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 9 की उपधारा (3) के खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस धारा की उपधारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति, केन्द्रीय सरकार से परामर्श के पश्चात्, आवास तथा टेलिफोन सुविधायें (संसद् सदस्य) नियम, 1956 में श्रीर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाती है, जो उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा यथा अपेक्षित राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित और पुष्ट कर दिये गये हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम आवास तथा टेलीफोन सुविधायें (संसद् सदस्य) संशोधन नियम, 1973 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आवास तथा टेलीफोन सुविधायें (संसद् सदस्य) नियम, 1956 के नियम 4 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"4. क. टेलीफोन प्रभारों के बारे में अन्य छूट।

(1) जहां नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन लगाये गये टेलीफोन के बारे में मापन-सुविधा उपलब्ध है, वहां उस टेलीफोन से की गई स्थानीय कालों और नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन लगाये गये टेलीफोन से की गई स्थानीय कालों एकत्रित की जायेगी और किसी वर्ष के दौरान दोनो टेलीफोनों से की गई दस हजार आठ सौ स्थानीय कालों के बारे में सदस्य किसी संदाय का दायी नहीं होगा।

(2) जहाँ नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन लगाये गये टेलीफोन के बारे में मापन सुविधा उपलब्ध न हो, वहाँ उस टेलीफोन से की गई स्थानीय कालों के बारे में और किसी वर्ष के दौरान नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन लगाये गये टेलीफोन से की गई पांच हजार चार सौ स्थानी कालों से अतिरिक्त अन्य दो हजार सात सौ स्थानीय कालों के बारे में सदस्य किसी सदाय का दायी नहीं होगा।

(3) जहाँ किसी सदस्य को या तो कोई टेलीफोन नहीं दिया गया है या नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन टेलीफोन देने की वह वाञ्छा नहीं करता है, वहा वह किसी वर्ष के दौरान नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन लगाये गये टेलीफोन से की गई अतिरिक्त पांच हजार चार सौ स्थानीय कालों के बारे में किसी सदाय का दायी नहीं होगा।"

[सं० फ़ा० 4/1/ एम एस ए/ 72-बोल II]

एस० एल० शकधर, सचिव।

